

ॐ

~~~~~

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय ।

कक्षा-अष्टम

विषय-हिन्दी(व्याकरण)

दिनांक—29 /08/2020

लिंग एवं वचन

~~~~~

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ॐ

मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!

आपका हर दिन खुशियों से भरा हो!

एन सी इ आर टी पर आधारित

वचन

पदों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, 'वचन' कहलाता है।

उदाहरण स्वरूप;

1. **पौधा** पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखता है।
2. **पौधे** पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं।
3. **शेर** मांसाहारी नहीं होता है।
4. **शेर** मांसाहारी नहीं होते ।

उपर्युक्त उदाहरणों में पौधा, पौधे और शेर एक एवं अनेक संख्याओं का बोध करा रहे हैं।

वचन के भेद -

वचन के दो भेद हैं-

एकवचन----

शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे- लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता आदि।

बहुवचन-----

शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे- लड़के, पुस्तकें, बच्चे, कुत्ते आदि।

वचन का प्रभाव

जिस प्रकार संज्ञा/सर्वनाम के लिंग के बदलने का प्रभाव पूरे वाक्य की संरचना पर पड़ता है, उसी प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने का प्रभाव भी वाक्य पर पड़ता है; जैसे-

वह जा रहा है।

वे जा रहे हैं।

घड़ी चल रही है।

घड़ियाँ चल रही हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम शब्दों एवं क्रिया पर पड़ने से इनका रूप परिवर्तित हो गया है।

वचन का प्रभाव विशेषण पर भी पड़ता है और वचन बदलने पर विशेषण का रूप बदल जाता है।

उदाहरण –

1. काला कुत्ता भाग गया।

काले कुत्ते भाग गए।

2. नया घर देखा।

नए घर देखे।

3. पीला फूल सूख गया।

पीले फूल सूख गए।

क्रमशः

छात्र कार्य- दी गई पाठ्य सामग्री को उत्तर पुस्तिका में लिखें एवं पढ़ें।

धन्यवाद।

कुमारी पिकी “कुसुम”



-

पीले फूल सूख गए।